

आज देश और दुनिया के कई हिस्सों में अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इसी क्रम में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने आज देहरादून में पुलिस लाइन में आयोजित योग शिविर में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि वैश्विक समुदाय अब योग के प्रति अधिक सम्मान रखता है और महाद्वीपों के लोग इससे लाभ उठा रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्रप्रदेश के विशाखापत्तनम में ग्यारहवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करते हुए विश्व समुदाय से योग दिवस को मानवता के लिए योग टू प्वाइंट ओ की शुरुआत के रूप में मनाने का विशेष आह्वान किया, जहां आंतरिक शांति, व वैश्विक नीति बने। उन्होंने कहा कि विश्व के विभिन्न भागों में तनाव, अशांति और अस्थिरता की स्थिति है, ऐसे में योग शांति का मार्ग दिखाता है।

योग से हमें शांति की दिशा मिलती है। मैं विश्व समुदाय से आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर एक आग्रह करूंगा। लेट दिस योगा डे मार्क द बिगनिंग ऑफ योगा फॉर ह्यूमनिटी टू प्वाइंट ओ, वेन इनर पीस बिगेन ग्लोबल पॉलिसी।

आधुनिक शोध के माध्यम से योग के विज्ञान को वैश्विक स्तर पर मजबूत करने के भारत के प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के प्रमुख चिकित्सा संस्थान योग अनुसंधान में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं, जिसका उद्देश्य समकालीन चिकित्सा पद्धतियों में इसकी वैज्ञानिक प्रासंगिकता स्थापित करना है।

सूचना और प्रसारण राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने कहा कि प्रधानमंत्री के प्रयासों से योग को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता मिली है। चेन्नई के राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान में योग सत्र के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि आज दुनिया भर के एक सौ पचीस देशों में योग किया जाता है।

देश भर में कई केंद्रीय मंत्रियों और अन्य गणनान्य लोगों ने योग करके निरोग रहने का संदेश दिया।

अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदेश के भी सभी जिलों में उत्साह के साथ योगाभ्यास के कार्यक्रम आयोजित किये गये और योग के महत्व पर चर्चा करते हुए इसे दिनचर्या का हिस्सा बनाने पर जोर दिया गया। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के मंत्री तथा देश और प्रदेश के गणमान्य लोग अलग अलग कार्यक्रमों में योगाभ्यास का हिस्सा बने। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में आज सुबह योगाभ्यास किया। इससे पहले उन्होंने योग के महत्व पर प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री ने योग को भारतीय ऋषि परम्परा का एक ऐसा यंत्र बताया जो काया को स्वस्थ करने के साथ-साथ मस्तिष्क को स्वस्थ बनाता है।

योग भारत योग की ऋषि परंपरा का एक ऐसा हम सब के लिए एक मंत्र है जो स्वस्थ काया के साथ साथ हमको एक स्वस्थ मस्तिष्क भी उपलब्ध करवाता है भारतीय मनीषा ने योग के बारे में प्राचीनकाल से ही इसके महत्व के बारे में हम सभी को वह विस्तृत रूप से अवगत कराया था और वैसे भारतीय मनीषा का ये मानना रहा है की शरीर माध्यम स्थलों धर्म साधनम यानी जितनी भी धर्म के साधन है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन सबकी प्राप्ति एक स्वस्थ शरीर से ही की जा सकती है।

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजभवन में योगाभ्यास कर लोगों को योग से जुड़ने के लिये प्रेरित किया। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज लखनऊ के रेजिडेंसी में योगाभ्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने लोगों का आह्वान किया कि वह सभी को योग को अपनाने के लिये प्रोत्साहित करें, जिससे एक स्वस्थ उत्तर प्रदेश का निर्माण हो सके।

केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ-नेफेड जल्दी ही किसानों से सीधी खरीददारी शुरू करेगा, जिससे कृषि उत्पादन प्रक्रिया में बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाएगी। कल मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान श्री शाह ने बताया कि देशभर में दो लाख नई प्राथमिक कृषि ऋण संस्थाएं स्थापित की जाएंगी।

आगामी छब्बीस जून को मोहर्रम का चांद दिखने के साथ ही सत्ताईस या अट्ठाईस जून से नये इस्लामी वर्ष की शुरुआत हो जाएगी। यह जानकारी गोरखपुर में सब्जपोश हाउस मस्जिद जाफरा बाजार के इमाम हाफिज रहमत अली निजामी ने दी। उन्होंने बताया कि मुहर्रम के चांद के साथ ही चौदह सौ सैंतालिस हिजरी का आगाज होगा। यौमे आशूरा यानी दसवीं मुहर्रम छह या सात जुलाई को पड़ेगी।

प्रदेश के सभी पूर्वी जिलों में मानसून सक्रिय हो गया है। गोरखपुर और आसपास के जिलों में बादलों के छाये रहने और रुक-रुक कर वर्षा होने का क्रम जारी है। वर्षा के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गयी है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार वर्षा के अनुकूल वायुमण्डलीय परिस्थितियां बनी हुयी हैं, इसके चलते अगले एक सप्ताह तक गरज-चमक के साथ वर्षा होने का क्रम जारी रहने के आसार हैं। कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम तो कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होने का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जताया है।
